



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 06 अगस्त, 2022 / 15 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

**NAGAR PANCHAYAT RAJGARH DISTT. SIRMAUR H.P.  
PROPERTY TAXATION BYE LAWS-2022 (FINAL)**

NOTIFICATION

*Dated the 30th March, 2022*

**No. NP/Rajgarh/2022-2691.**—The following Bye-Laws made by the Nagar Panchayat Rajgarh for regulating the Property Taxation in exercise of the powers conferred by Section 202

and 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.12 of 1994) having been confirmed by the State enforcement, as required under section 217 of the aforesaid acts are hereby published for general information, namely:—

### **MODEL/DRAFT BYE-LAWS RELATING TO PROPERTY TAXATION**

**1. Short title and Commencement.**—(i) These Bye-laws may be called the Nagar Panchayat Rajgarh (Property Taxation) Bye-laws, 2021

(ii) These bye-laws shall come into force from the date of publication of its notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**—In these bye-laws unless the context otherwise require—(i) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (Act No. 13 of 1994) read with its amendments carried out *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.

(ii) “**Appellate Authority**” means an authority prescribed under Section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.

(iii) “**Assessment List**” means the list of all units of the lands and buildings assessable to property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.

(iv) “**Assessment year**” means the year commencing from the first day of April to 31<sup>st</sup> of March of succeeding year.

(v) “**Bye-Laws**” means the Municipality (Property Taxation) bye-laws 2021 made under the Act as notified in the official gazette.

(vi) “**Municipality**” means as defined in Section 2 (24) of the Act.

(vii) “**Section**” means a Sections of the Act.

(viii) “**Ratable Value**” as defined in Section 2 clause (33-a) of the Act and procedure prescribed under these Bye-Laws.

(ix) “**Unit**” means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and build up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural lands and land in notified green belt as notified under the interim development plan of Rajgarh Planning area.

(x) “**Unit area**” means area of a unit in square meters.

(xi) “**Unit area tax**” means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of ratable value of unit(s) of lands & buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

**3. Assessment list what to contain.**—The Secretary shall keep a book to be called the “Assessment List” in which the following shall be entered in Form-A appended to these bye-laws:—

- (a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Municipality/ Nagar Panchayat Rajgarh distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.
- (b) The rate able value of each unit of the lands and buildings.
- (c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rate able value as well as property tax demand on his/her unit of land or building.
- (d) If any such unit of a land or a building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and
- (e) Other details; if any, as the Secretary may from time to time think, fit.

**Explanation.**—(i) For the purpose of clause (b) the rate able value of the unit(s) of the land will be the rate able value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rate able value will include the rate able value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as “land” till the completion plan of building is sanctioned by Nagar Panchayat Rajgarh or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rate able value of the unit of land till such time treating it as “land”.

**4. Form of Assessment list.**—The assessment list shall be kept in the form-A hereto. The Secretary may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the Performa of the assessment list as and when required.

**5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.**—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as “the holder” of such unit of land or building without further description.

**6. Inspection of assessment list.**—If assessment list has been completed, the Secretary shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

**7. Register of Objections.**—(1) The Executive Officer/Secretary shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of section 74 and sub-section (2) of section 76 shall be entered. The register shall contain:—

- (i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;
- (ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;
- (iii) Name of the objector;
- (iv) The rate able value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;
- (v) The date from which the rate able value finally fixed has to come into force; and
- (vi) Such other details as the Secretary may from time to time think, fit;

**8. Amendment of Assessment list under the provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendments.**—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub Section 1 of 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

**9. Payment of property taxes where to be made.**—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Municipality or at such other place(s) and time as may be specified by the Executive Officer/Secretary as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn

in favour of the Secretary, Nagar Panchayat Rajgarh payable at Rajgarh or through RTGS in the Bank Account of Nagar Panchayat Rajgarh declared for the said purpose by the Secretary, as the case may be.

**10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.**—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on form-B annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/ speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Executive Officer/Secretary or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act:

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the rate able value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* up to 30<sup>th</sup> April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30<sup>th</sup> April and second installment by 30<sup>th</sup> October every year.

**11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.**—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

**12. Demand and collection registers.**—(i) A register of demand & collection of property tax in form-F appended to these bye laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Secretary, as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any the Secretary, as the case may be thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Secretary, as the case may be determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

**13. Circumstances not considered as vacancy of property.**—For the purpose of Sections 81 and 84 of Himachal Pradesh Municipal, Act, 1994:—

- (i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;

- (ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended;

**14. Remission/Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Executive Secretary, as the case may be every year.**—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Secretary, as the case may be on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Secretary within 60 days from the commencement of the next financial year.

**15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.**—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Municipality staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Executive Officer/Secretary, as the case may be refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

**16. Copies of property tax bill(s).**—The Secretary, as the case may be, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Secretary, as the case may be, from time to time.

**17. Notice on transfer of title.**—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under Section 83 shall be either in Form-“C” or Form-“D” annexed to these bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

**18. Property tax to be paid upto date.**—No such notice as contained in Bye-Laws 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

**19. Filling of return by owner(s)/ occupier(s).**—The Secretary, as the case may be require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in Form-“E” appended to these bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

**20. Penalty for non- submission of return.**—Whosoever omits to comply with any requisition under 19 of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Secretary, as the case may be in respect of such unit of the lands or building of which he is the owner or occupier.

**21. Inspection of Tax Record.**—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/ building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Executive Officer/Secretary, as the case may be or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

**22. Location Factor, Characteristic and its value.**—For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location Factor, characteristic and its values shall be as under:—

(i) **Tentative Zoning of Rajgarh town proposed as follows:**

- A. Ward No. 6 Sh. Kheda house towards both side of main road..post office.. via bus stand (Habban road) to house of Sh. Sewak Ram s/o Sh. Daulat ram in Ward No. 5 and from both sides of Nohradhar road up to Petrol Pump.
- B. Ward No. 6 from Hadech road on both sides of main road .. to N.P. gate and from Sh. Surjit's building of Ward No. 5 on both sides of main road which are not covered in Zone 1 to N.P. boundary and area of Govt. Hospital, both sides along with road near Nehru Ground area of Ward No. 4, from shops from Prem Dhaba towards shop of Raju Sahni towards ground including area near Murari's shop, via Primary School up to Brahm Kumari's Aashram and shops near Tehsil complex of Ward No. 1 including New Bus Stand complex.
- C. Both sides of Main road up to 100 mtrs. Distance which are included in Zone 1 and Zon 2.
- D. All othert buildings which are not included in Zone 1,2 and 3.

- (ii) **Number of Zones.**—The entire municipal area is proposed to be divided into four zones *i.e.* zone –A, zone –B, zone –C, zone –D Factors and proposed value of each factor. There are five factors which are relevant for determination of rate able value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factors per sq. meter shall be as under:—

(1) **Location factor (F-1): @as mentioned below**

Location (Zone) No.	Value per sq. mtr.
A =	4
B =	3
C =	2.50
D =	2

**23. Structural factor (F-2)/ characteristics and its value.**—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, building shall be classified as pucca, semi-pucca and kucha in the following manner:—

- (i) For Pucca-building, value per sq. mtr. = 3
- (ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr. = 2
- (iii) For kucha building, value per sq. mtr. = 1

**24. Age factor and Age-wise grouping and value of the buildings (F-3).**—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group:—

Group	Building	Factor value
A	Before 1947	1
B	Above 1947 to 1980	2
C	Above 1981 to 2000	3
D	Above 2001 to 2020	4
E	2021 and beyond	4.5

**25. Occupancy factor/characteristics and its value (F-4).**—The occupancy factor and its value shall be as under for the purpose of Clause (c) *ibid*:—

**(i) Value for residential occupancy:**

(a) Value for self residential = 4	(b) Value for Let out residential = 8
Commercial self = As Below Chart	Commercial let out = As Below Chart

**(ii) Value per sq. mtr. for non-residential occupancy:**

A	B	C	D	E
Hotels above built-up area of 2000 Sq. mtr., MNC Show Rooms and Restaurant	Hotel having built-up area between 1000 to 2000 Sq. mtr. And Show Room above 1000 Sq. Mtr.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show Rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centres	Shops, School, Colleges, Educational Institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House	Gowdowns, Dhabas, Stall and Other types of Properties not covered under (A to D)
Commercial self & Other – Below 100 sqm = 32 101 to 300 sqm = 35 Above 301 sqm = 40				

**26. Use factor/ characteristic and its value.**—For the purpose of Clause (33 a) of Section 2 of the Act, the value of use factor/characteristic of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of Clause (33 a) *ibid* shall be as under:—

- (i) Residential = 4
- (ii) Non- Residential = As Below



**27. Method of calculation of rate able value and rate of property tax on the net rate able value of the lands and buildings shall be as under:—**

<b>A-Zone</b>	<b>B-Zone</b>
<b>For residential properties – 7%</b>	<b>For residential properties – 7%</b>
<b>For non- residential properties – 7%</b>	<b>For non- residential properties – 7%</b>
<b>For land properties – Nil</b>	<b>For land properties – Nil</b>

**28. Penalty.**—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per section 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-Laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Executive Officer/Secretary, as the case may be request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

**29. Repeal and Savings.**—The scheme, regulation or Bye-Laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/-  
Secretary,  
Nagar Panchayat Rajgarh.

<b>Nagar Panchayat Rajgarh</b>				
<b>TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST</b>				
FORM-A (See Bye Laws-4)				
UPN-No. _____ I.D. No. _____ ZONE _____				
Unit	Area	Net Rate able Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
<b>Residential</b>				
<b>Let Out Residential</b>				
<b>Commercial</b>				
<b>Plot of Land</b>				

<b>DATE OF ASSESSMENT</b>				
Sl. No.	Name of Property	Name of Owner	Name of Tenant or Occupier	Remarks

[illegible]

**Nagar Panchayat Rajgarh  
(Tax Department)**

**Financial Year for the Year** \_\_\_\_\_ **Bill No.** \_\_\_\_\_ **Dated** \_\_\_\_\_  
**Zone** \_\_\_\_\_ **Bill(s) Detail**

UPN No.	_____
ID No.	_____
Name of Property	_____
Name of Owner/Occupier	_____
Correspondence Address	_____
Due date 15 days from the date of Receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill.	

Unit	Area	Net Rate able Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				

Plot of Land				
--------------	--	--	--	--

**Detail of demand for Property Tax for the year \_\_\_\_\_ Period \_\_\_\_\_**

Sl. No.	Description of Tax	Amount
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate @ 10% (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period _____	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	
7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

**Please pay bill before due date to avail 10% rebate.**

**Bill Prepared By**

**Bill Checked By**

**Assistant Tax Superintendent**

### Receipt

UPN No. _____	Bill No. _____ Bill Date _____
ID No. _____	Amount before due date _____
Name of Owner/Occupier _____	Amount after due date _____
	Amount Paid _____
	Receipt No. _____ Dated _____

*Cashier,  
Nagar Panchayat Rajgarh.*

### TERMS & CONDITIONS

1. The Municipality Treasury is open from 10.00 A.M. to 02.00 P.M. on all working days
2. Cheques should be drawn in favour of Secretary, as the case may be, Nagar Panchayat Rajgarh.
3. Outstations cheques should include the discount charged in such cheque(s)

4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills sent under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date of posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.
6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Nagar Panchayat Rajgarh to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.
7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Nagar Panchayat Rajgarh.
8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.
9. Bill generated be presented while tendering payment.

\_\_\_\_\_  
FORM-C  
(See Bye Law 17)

**Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument**

To

The Secretary,  
Nagar Panchayat Rajgarh.

I \_\_\_\_\_ S/o \_\_\_\_\_  
R/o \_\_\_\_\_ hereby  
give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of  
property:—

**Description of Property**

Name & address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date \_\_\_\_\_

Name of Owner/Occupier \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Mob. No. \_\_\_\_\_

FORM-D  
(See Bye Law 17)

**Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument**

To

The Secretary,  
Nagar Panchayat Rajgarh.

I \_\_\_\_\_ s/o \_\_\_\_\_

r/o \_\_\_\_\_ hereby give notice as  
required by section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

**Description of Property**

Name & address of person whose title has been transferred	Name of legal heir/successor to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assessee	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date \_\_\_\_\_

Name of Owner/Occupier \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Mob. No. \_\_\_\_\_

[illegible]

	Guest House (PGs), Guest House.										
	(e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (a to d).										
3.	Plot of Land										

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed there from.

Date \_\_\_\_\_

Yours faithfully,

(Signature)  
Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Mob. No. \_\_\_\_\_

*Verification of the  
Assistant Tax Superintendent*

*Verification of the  
Secretary*

FORM-F  
(See Bye-Laws 12)

**Nagar Panchayat Rajgarh  
Demand and Collection Register**

For the Financial Year \_\_\_\_\_

UNP No. _____
ID No. _____
Name of Property: _____
Name of Owner/Occupier: _____
Correspondence Address: _____
_____

Unit	Area	Net Rate able Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

General Tax	Rebate	Total General Tax	Previous Arrear Amount	Interest	Net Amount Payable	Bill No.	Date of issuing Bill	Current General Tax Collection	Rebate & Remission	Arrear Collection	Interest Collection	Receipt No.	Receipt Date	Current Balance Amount	Arrear Balance Amount	Credit	Remarks

### जल शक्ति विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 03 अगस्त, 2022

**संख्या: जे0एस0वी0-बी(एच)1-4/2022-सोलन.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा फान्जी, तहसील अर्की, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजना (फान्जी खागड) के पम्प हाऊस के निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन कलेक्टर/समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला.3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

#### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
सोलन	अर्की	फान्जी	31	0-01-82 है०

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—  
सचिव (जल शक्ति),।

#### विधि विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 2022

**संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-13/2015-लेज-1.**—श्री प्रदीप कुमार सैनी, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2012-लेज दिनांक 09-06-2014 द्वारा पब्लिक नोटरी के रूप



में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल पौंटा साहिब, जिला सिरमौर की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 407 पर दर्ज किया गया था।

श्री प्रदीप कुमार सैनी, अधिवक्ता का व्यवसाय प्रमाणपत्र दिनांक 30-06-2019 तक विधिमान्य था और उन्होंने इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, उनका नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से हटाने से पहले उनको व्यवसाय प्रमाणपत्र नवीनीकरण न करने के लिए इस विभाग के पत्र संख्या एल0एल0आर0-ई (9)-13/2015-लेज दिनांक 05-02-2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परन्तु, अभी तक तीन साल से अधिक समय अवधि व्यतीत होने के बाद भी उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रदीप कुमार सैनी, पब्लिक नोटरी, उप-मण्डल पौंटा साहिब जिला सिरमौर का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,  
प्रधान सचिव (विधि)।

-----  
[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-13/2015-Leg.I Dated 04-08-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## LAW DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 4th August, 2022*

**No. LLR-E(9)-13/2015-Leg.-I.**—WHEREAS, Shri Pradeep Kumar Saini, Advocate was appointed as Public Notary *vide* Government Notification No. LLR-E(9)-5/2012-Leg. dated 09-06-2014 and authorized to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur and his name was entered at serial No. 407 in the Register of Notaries;

WHEREAS, the certificate of practice of Shri Pradeep Kumar Saini was valid upto 30-06-2019 and he had not applied for its renewal. He was issued show cause notice *vide* letter No. LLR-E(9)-13/2015-Leg. dated 05-02-2020 for non renewal of his license before removal of his name from the register of notary. But nothing has been heard from him till today as more than three years have lapsed.

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Pradeep Kumar Saini, Notary Public of Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,  
Sd/-

(RAJEEV BHARDWAJ),  
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

## नगर एवं ग्राम योजना विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 05-08-2022

**संख्या. टी0सी0पी0-एफ05/10/2021.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (घ) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2006, तारीख 12-01-2007 द्वारा सम्मिलित किए गए शिमला योजना क्षेत्र के निम्नलिखित राजस्व गांवों को शिमला योजना क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाता है और इस प्रकार ये उक्त क्षेत्र का भाग नहीं रह गए हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व गांवों का नाम	हदबस्त नं0	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)
1.	डी0पी0एफ0 कांगर	45	59
2.	गलू खूर्द	199	118
3.	डी0पी0एफ0 तीर महासु	2	01
4.	गलू कलां	320	243
5.	फागू	241	142
6.	देहना	370	942
7.	बणी	371	93
8.	कडराव	384	623

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह और घोषणा करते हैं कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-13/2001, तारीख 02-03-2002 द्वारा गठित कुफरी विशेष क्षेत्र के उपरोक्त राजस्व गांवों को तत्काल प्रभाव से कुफरी विशेष क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाता है, इस प्रकार यह विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) का भाग नहीं रह जाएंगे।

अतः शिमला योजना क्षेत्र और कुफरी विशेष क्षेत्र से ऊपर निर्दिष्ट राजस्व गांवों के अपवर्जन के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना क्षेत्र में उपरोक्त राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुए टियोग योजना क्षेत्र की सीमाओं को निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठित और परिभाषित करते हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व गांवों का नाम	हदबस्त नं0	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	टिप्पणी
1.	नगर परिषद टियोग	—	4353	समस्त क्षेत्र
2.	टिकर	261	276	सम्पूर्ण गांव
3.	रसाली	274	53	—यथोपरि—
4.	धनोट	268	150	—यथोपरि—
5.	जनोग अब्बल	291	208	—यथोपरि—

6.	टिंगर टनकोटी	289	144	—यथोपरि—
7.	जतैन	286	76	—यथोपरि—
8.	जगेड़ी	277	134	—यथोपरि—
9.	दयोरीघाट	278	811	—यथोपरि—
10.	रेवोग	358	92	—यथोपरि—
11.	भेखलटी	353	139	—यथोपरि—
12.	कांडी सेर	352	82	—यथोपरि—
13.	कैथ सेर	351	103	—यथोपरि—
14.	नलेहन	280	301	—यथोपरि—
15.	जंगल बडयाना	275	—	—यथोपरि—
16.	जंगल रोहडू	270	72	मानचित्र में यथा दर्शित
17.	बासा ठियोग	131	104	—यथोपरि—
18.	शली शीली नल्ली	272	नगर परिषद क्षेत्र	—यथोपरि—
19.	शली खागली	290	—यथोपरि—	संपूर्ण गांव
20.	शली	271	—यथोपरि—	—यथोपरि—
21.	छाडाला	273	—यथोपरि—	—यथोपरि—
22.	रेईघाट	276	—यथोपरि—	—यथोपरि—
23.	डी0पी0एफ0 कांगर	45	59	—यथोपरि—
24.	गलू खुर्द	199	118	—यथोपरि—
25.	डी0पी0एफ0 तीर महासु	2	01	—यथोपरि—
26.	गलू कलां	320	243	मानचित्र में यथा दर्शित
27.	फागू	241	142	मानचित्र में यथा दर्शित
28.	देहना	370	942	मानचित्र में यथा दर्शित
29.	बणी	371	93	मानचित्र में यथा दर्शित
30.	कडराव	384	623	मानचित्र में यथा दर्शित
	<b>कुल..</b>	<b>—</b>	<b>9043</b>	

### ठियोग योजना क्षेत्र सीमा

**उत्तर :** राजस्व गांव गलू कलां हदबस्त नं0 320, फागु हदबस्त नं0 241, रेवाग हदबस्त नं0 358, भेखलटी हदबस्त नं0 353, कंडीसर हदबस्त नं0 352, कैथ सर हदबस्त नं0 351, नलेहन हदबस्त नं0 280, दयोरीघाट हदबस्त नं0 278, टिक्कर हदबस्त नं. 261, जंगल बडयाना हदबस्त नं0 75, राशेल्ली हदबस्त नं0 274, धनोट हदबस्त नं0 268, जंगल ठियोग हदबस्त नं0 270 की बाह्य सीमाओं से प्रारम्भ होकर राजस्व गांव बासा ठियोग हदबस्त नं0 131 की बाह्य सीमाओं तक।

**पूर्व:** बासा ठियोग हदबस्त नं0 131 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं से प्रारम्भ होकर और जनोग अव्वल हदबस्त नं0 291 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं तक।

**दक्षिण:** जनोग अव्वल हदबस्त नं0 291, टिंगर टंकोटी हदबस्त नं0 289, जतैन हदबस्त नं0 286, जगेड़ी हदबस्त नं0 277, नालचन हदबस्त नं0 280, कैथसर हदबस्त नं0 351, कंडीसर हदबस्त नं0 352, भेखलटी हदबस्त नं0 353, रेवाग हदबस्त नं0 358, बणी हदबस्त नं0 371, देहना हदबस्त नं0 370,

कडराव हदबस्त नं 384 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं से प्रारम्भ होकर और टीर महासू हदबस्त नं 2 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं तक।

**पश्चिम:** राजस्व गांव गलू खुर्द हदबस्त नं 199 द्वारा सीमाबद्ध, डी0पी0एफ0 कांगर हदबस्त नं 45 और गलू कलां हदबस्त नं 320 की बाह्य सीमा।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
(देवेश कुमार),  
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

*[Authorised English text of this department notification No. TCP-F 05/10/2021 Shimla, dated 05-08-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].*

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla, the 05th August, 2022*

**No. TCP-F05/10/2021.**—Whereas the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under clauses (a) and (d) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) is pleased to declare that the following revenue villages of Shimla Planning Area included *vide* this Department's Notification No. TCP-F (5)-1 /2006, dated 12-01-2007 are excluded from the Shimla Planning Area as such same shall cease to be part of said area :—

Sl. No.	Name of Revenue village	Hadbast No.	Population (as per census, 2011)
1.	D.P.F. Kanger	45	59
2.	Gallu Khurd	199	118
3.	D.P.F. Teer Mahasu	2	01
4.	Gallu Kalan	320	243
5.	Fagu	241	142
6.	Dehna	370	942
7.	Bani	371	93
8.	Kadrav	384	623

And whereas in exercise of the powers vested under clause (a) and (b) of sub-section (3) of section 66 of the Act *ibid*, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to declare that the above revenue villages of the Kufri Special Area constituted *vide* this Department Notification No. TCP-F(5)-13/2001, dated 02-03-2002, are excluded from the Kufri Special Area and as such shall cease to be the part of the said Special Area.

Now therefore consequent upon the exclusion of above referred revenue villages from Shimla Planning Area and Kufri special Area, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Act *ibid* is pleased to re-constitute and re-define the limits of **Theog Planning Area** by including the above revenue villages in the said planning area, as under :—

Sl. No.	Name of Revenue villages	Hadbast No.	Population (as per census, 2011)	Remarks
1.	Municipal Council Theog	-	4353	Entire Area
2.	Tikar	261	276	Whole village
3.	Rashali	274	53	-do-
4.	Dhanot	268	150	-do-
5.	Janog Avval	291	208	-do-
6.	Tinger Tankoti	289	144	-do-
7.	Jatain	286	76	-do-
8.	Jagedi	277	134	-do-
9.	Deorighat	278	811	-do-
10.	Revog	358	92	-do-
11.	Bhakhalti	353	139	-do-
12.	Kandi Ser	352	82	-do-
13.	Kainth Ser	351	103	-do-
14.	Nalehan	280	301	-do-
15.	Jangal Badyana	275	-	-do-
16.	Jangal Rohroo	270	72	As shown in Map
17.	Basa Theog	131	104	-do-
18.	Shali Shili Nalli	272	M.C. Area	-do-
19.	Shali Khagali	290	-do-	Whole village
20.	Shali	271	-do-	-do-
21.	Chha Daala	273	-do-	-do-
22.	Rehighat	276	-do-	-do-
23.	D.P.F. Kanger	45	59	-do-
24.	Gallu Khurd	199	118	-do-
25.	D.P.F. Teer Mahasu	2	01	-do-
26.	Gallu Kalan	320	243	As shown in Map
27.	Fagu	241	142	As shown in Map
28.	Dehna	370	942	As shown in Map
29.	Bani	371	93	Whole village
30.	Kadrav	384	623	As shown in Map
	<b>Total..</b>	-	<b>9043</b>	

**THEOG PLANNING AREA BOUNDARY**

- North:** Starting from the outer boundaries of revenue villages Galu Kalan Hadbast No. 320, Fagu Hadbast No. 241, Revag Hadbast No. 358, Bekhlti Hadbast No. 353, Kanddiser Hadbast No. 352, Kaithser Hadbast No. 351, Nalehan Hadbast No. 280, Deorighat Hadbast No. 278, Tikkar Hadbast No. 261, Jangal Badyana Hadbast No. 75, Rashelli Hadbast No. 274, Dhanot Hadbast No. 268, Jangal Theog Hadbast No. 270 and upto outer boundaries of revenue village BasaTheog Hadbast No. 131.
- East:** Starting from the outer boundaries of revenue village of Basa Theog Hadbast No. 131 and upto outer boundaries of revenue village of Janog Avval Hadbast No. 291.
- South:** Starting from the outer boundaries of revenue village of Janog Avval Hadbast No. 291, Tingar Tankoti Hadbast No. 289, Jatain Hadbast No. 286, Jagedi Hadbast No. 277, Nalchan Hadbast No. 280, Kainth Ser Hadbast No. 351, Kandi Ser Hadbast No. 352, Bhakhalti Hadbast No. 353, Revag Hadbast No. 358, Bani Hadbast No. 371, Dehna Hadbast No. 370, Kadrav Hadbast No. 384 and upto outer boundaries revenue village Teer Mahasu 2.
- West:** Bounded by the Revenue village Galu Khurad Hadbast No. 199, outer boundary of D.P.F. Kangar Hadbast No. 45 and Galu Kalan Hadbast No. 320.

By order,

DEVESH KUMAR,  
Principal Secretary (TCP).

**नगर एवं ग्राम योजना विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 05 अगस्त, 2022

**संख्या टी0सी0पी0-एफ05/10/2021** .—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 05-08-2022 को ऐसा दिवस नियत करते हैं जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में प्रवृत्त होंगे जिन्हें निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार, अधिसूचना संख्या—TCP- F05/10/2021 तारीख 05-08-2022 और तारीख 05-08-2022 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित ठियोग योजना क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है:—

**विनिर्देश**

क्रम संख्या	राजस्व गांवों का नाम	हदबस्त संख्या	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)
1.	डी0पी0एफ0 कांगर	45	59
2.	गलू खूर्द	199	118
3.	डी0पी0एफ0 तीर महासु	2	01
4.	गलू कलां	320	243

5.	फागू	241	142
6.	देहना	370	942
7.	बनी	371	93
8.	काद्रव	384	623

### ठियोग योजना क्षेत्र सीमा

**उत्तर :** राजस्व गांव गलू कलां हदबस्त नं0 320, फागु हदबस्त नं0 241, रेवाग हदबस्त नं0 358, भेखलटी हदबस्त नं0 353, कंडीसर हदबस्त नं0 352, कैथसर हदबस्त नं0 351, नलेहन हदबस्त नं0 280, दयोरीघाट हदबस्त नं0 278, टिक्कर हदबस्त नं. 261, जंगल बढयाना हदबस्त नं0 75, राशेल्ली हदबस्त नं0 274, धनोट हदबस्त नं0 268, जंगल ठियोग, हदबस्त नं0 270 की बाह्य सीमाओं से प्रारम्भ होकर राजस्व गांव बासा ठियोग, हदबस्त नं0 131 की बाह्य सीमाओं तक।

**पूर्व:** बासा ठियोग हदबस्त नं0 131 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं से प्रारम्भ होकर और जनोग अव्वल हदबस्त नं0 291 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं तक।

**दक्षिण:** जनोग अव्वल हदबस्त नं0 291, तिंगर टंकोटी हदबस्त नं0 289, जतैन हदबस्त नं0 286, जगेड़ी हदबस्त नं0 277, नालचन हदबस्त नं0 280, कैथसर हदबस्त नं0 351, कंडीसर हदबस्त नं0 352, भेखलटी हदबस्त नं0 353, रेवाग हदबस्त नं0 358, बणी हदबस्त नं0 371, देहना हदबस्त नं0 370, कडराव हदबस्त नं 384 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं से प्रारम्भ होकर और टीर महासू हदबस्त नं 2 के राजस्व गांव की बाह्य सीमाओं तक।

**पश्चिम:** राजस्व गांव गलू खुर्द हदबस्त नं0 199 द्वारा सीमाबद्ध, डी0पी0एफ0 कांगर हदबस्त नं0 45 और गलू कलां हदबस्त नं0 320 की बाह्य सीमा।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—

(देवेश कुमार),  
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

*[Authorised English text of this Department Notification No. TCP-F 05/10/2021 Shimla, dated 05-08-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India]*

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla, the 05th August, 2022*

**No. TCP- F05/10/2021.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 5th day of August, 2022, as the day on which the provisions of Act *ibid* shall come into force in the following revenue villages which have of Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh which have been included in the Theog

Planning Area *vide* notification No. TCP-F05/10/2021 dated 05-08-2022 and published in Rajpatra (e-Gazette) on 05-08-2022 as per specifications below:—

### SPECIFICATIONS

Sl. No.	Name of Revenue villages	Hadbast No.	Population (as per census, 2011)
1.	D.P.F. Kanger	45	59
2.	Gallu Khurd	199	118
3.	D.P.F. Teer Mahasu	2	01
4.	Gallu Kalan	320	243
5.	Fagu	241	142
6.	Dehna	370	942
7.	Bani	371	93
8.	Kadrav	384	623

### THEOG PLANNING AREA BOUNDARY

- North:** Starting from the outer boundaries of revenue villages Galu Kalan Hadbast No. 320, Fagu Hadbast No. 241, Revag Hadbast No. 358, Bhakhalti Hadbast No. 353, Kanddiser Hadbast No. 352, Kaithser Hadbast No. 351, Nalehan Hadbast No. 280, Deorighat Hadbast No. 278, Tikkar Hadbast No. 261, Jangal Badyana Hadbast No. 75, Rashelli Hadbast No. 274, Dhanot Hadbast No. 268, Jangal Theog Hadbast No. 270 and upto outer boundaries of revenue village BasaTheog Hadbast No. 131.
- East:** Starting from the outer boundaries of revenue village of Basa Theog Hadbast No.131 and upto outer boundaries of revenue village of janog Avval hadbast No. 291.
- South:** Starting from the outer boundaries of revenue village of Janog Avval Hadbast No. 291, Tingar Tankoti Hadbast No. 289, Jatain Hadbast No. 286, Jagedi Hadbast No. 277, Nalchan Hadbast No. 280, Kainther Hadbast No. 351, KandiSer Hadbast No. 352, Bhakhalti Hadbast No. 353, Revag Hadbast No. 358, Bani Hadbast No. 371, Dehna Hadbast No. 370, Kadrav Hadbast No. 384 and upto outer boundaries revenue village Teer Mahasu 2.
- West:** Bounded by the Revenue village Galu Khurad Hadbast No. 199, outer boundary of D.P.F. Kangar Hadbast No. 45 and Galu Kalan Hadbast No. 320.

By order,

DEVESH KUMAR,  
Principal Secretary (TCP).

नगर निगम शिमला

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई 2022

संख्या ननिशि/आयु./2593/आर0बी0/2021-1899.—जबकि मोहाल फागली, शिमला (शहरी) जिला शिमला हि0प्र0 में खसरा नम्बर 198 व 149 में 90 वर्ग मीटर (लम्बाई 60 वर्ग मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर), खसरा नम्बर 148 में 67.50 वर्ग मीटर (लम्बाई 45 वर्ग मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर), कुल लम्बाई 157.



50 वर्ग मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर को एकता निवास से हिम कुंज व रवि निवास से आकाश भवन तक आर.डी. 0/0 से 0/60 व आर.डी. 0/0 से 0/45 मीटर मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करने कार्यालय पृष्ठांकन संख्या ननिशि/आयु./2593/आर0बी0/2021-1341 दिनांक 24-05-2022 के द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एक माह का समय दिया गया था।

और जबकि आपत्तियां दायर करने हेतु एक माह का समय पूर्ण हो गया है, परन्तु निश्चित अवधि के भीतर किसी भूमि/भवन स्वामी से इस मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए कोई भी आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतः मैं, आशीष कोहली, आयुक्त, नगर निगम शिमला एतद्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(1) में दर्शाये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मोहाल फागली, शिमला (शहरी) जिला शिमला हि0प्र0 में खसरा नम्बर 198 व 149 में 90 वर्ग मीटर (लम्बाई 60 वर्ग मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर), खसरा नम्बर 148 में 67.50 वर्ग मीटर (लम्बाई 45 वर्ग मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर), कुल लम्बाई 157.50 वर्ग मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर को एकता निवास से हिम कुंज व रवि निवास से आकाश भवन तक आर.डी. 0/0 से 0/60 व आर.डी. 0/0 से 0/45 मीटर मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करता हूं।

आयुक्त,  
नगर निगम शिमला।

-----

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं० : 14/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 24-08-2022

श्रीमती पार्वती देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती निकी देवी पत्नी गंगे राम, हाल पत्नी स्वर्गीय केसरू राम, निवासी मोहाल टकोली, डाकघर नगवाँई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वादीया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती पार्वती देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती निकी देवी पत्नी गंगे राम, हाल पत्नी स्वर्गीय केसरू राम, निवासी मोहाल टकोली, डाकघर नगवाँई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन—पत्र मय शपथी—पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसकी बहन श्रीमती कान्ता पुत्री गंगे राम, निवासी मोहाल टकोली, डाकघर नगवाँई, तहसील औट, जिला मण्डी की मृत्यु दिनांक 10-05-1972 को उसके घर मुकाम टकोली में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण तत्कालीन ग्राम पंचायत नगवाँई में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थिया अब ग्राम पंचायत टकोली के रिकार्ड में अपनी बहन की मृत्यु का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त की मृत्यु की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2022 को 10.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 13/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 24-08-2022

श्री ठाकर दास उर्फ ठाकरू पुत्र श्री शेषू, निवासी गांव सनसोई, डाकखाना पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री ठाकर दास उर्फ ठाकरू पुत्र श्री शेषू, निवासी गांव सनसोई, डाकखाना पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 27-06-2022 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पनारसा में 'ठाकरू' गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम 'ठाकर दास' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम 'ठाकरू' की जगह 'ठाकर दास उर्फ ठाकरू' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2022 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 17/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 24-08-2022

श्रीमती ऐला वती पुत्री स्व0 ढालू पुत्र नरु, निवासी गांव पणीधार, महाल फर्श, डाकघर नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी तथा हाल पत्नी तान्दू राम, निवासी गांव शोगी, डा0 न्यूल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) वादिया।

## बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती ऐला वती पुत्री स्व० ढालू पुत्र नरु, निवासी गांव पणीधार, महाल फर्श, डाकघर नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी तथा हाल पत्नी तान्दू राम, निवासी गांव शोगी, डा० न्यूल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने दिनांक 14-07-2022 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मोहाल नगवांई के खेवट नम्बर 47 में 'वन्ती देवी' दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत में उसका नाम 'ऐला वती' दर्ज है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम 'वन्ती देवी' की जगह 'ऐला वती' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2022 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि० प्र०)

मिसल नं० : 15/टी०डी०आर०/2022

आगामी पेशी : 24-08-2022

श्री कशिन्द्र लाल पुत्र श्री पृथी सिंह, निवासी गांव टिक्कर, मुहाल टिक्कर, डाकखाना बालू, तहसील औट, जिला मण्डी (हि० प्र०) प्रतिवादी।

## बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री कशिन्द्र लाल पुत्र श्री पृथी सिंह, निवासी गांव टिक्कर, मुहाल टिक्कर, डाकखाना बालू, तहसील औट, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने दिनांक 16-06-2022 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल नगवांई के खेवट नम्बर 111 मिन/129 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 में 'कुशेन्द सिंह' गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका सही नाम 'कशिन्द्र लाल' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम 'कुशेन्द सिंह' की जगह 'कशिन्द्र लाल' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2022 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

### अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 16/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 24-08-2022

श्री लिलेन्द्र सिंह पुत्र श्री एलू राम उर्फ बेली राम, निवासी गांव लकशाल, डाकखाना राहला, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री लिलेन्द्र सिंह पुत्र श्री एलू राम उर्फ बेली राम, निवासी गांव लकशाल, डाकखाना राहला, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 07-07-2022 को इस अदालत में आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल रोपा में 'एलू राम' गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसके पिता का सही नाम 'बेली राम' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू—राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम 'एलू राम' की जगह 'एलू राम उर्फ बेली राम' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2022 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**अज कार्यालय, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 13/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 24-08-2022

श्री बाला राम पुत्र श्री डाबे राम, निवासी मोहाल सोझा, डाकखाना पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री बाला राम पुत्र श्री डाबे राम, निवासी मोहाल सोझा, डाकखाना पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 25-05-2022 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके दादा का नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख मुहाल सोझा के खेवट नम्बर 19, जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 में 'संगतु' गलती से दर्ज हुआ है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसके दादा का सही नाम 'डोलू' दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसके दादा का नाम 'संगतु' की जगह 'डोलू' दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2022 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 18/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 25-08-2022

श्री टिकमे राम पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव बिंस नाल, मुहाल भटवाडी, डाकघर कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री टिकमे राम पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव बिंउस नाल, मुहाल भटवाडी, डाकघर कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र श्री हेम राज का जन्म दिनांक 24-05-2007 को उसके घर गांव बिंउस नाल में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण तत्कालीन ग्राम पंचायत भटवाडी में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत भटवाडी में अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2022 को 10.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

#### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 19/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 25-08-2022

श्री नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री मस्त राम पुत्र धर्म दास, निवासी गांव टेपर, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री मस्त राम पुत्र धर्म दास, निवासी गांव टेपर, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसके चाचा श्री कातकू पुत्र श्री धर्म दास, निवासी गांव टेपर, डाकघर व तहसील औट की मृत्यु दिनांक 10-05-2012 को हुई है। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत कार्यालय नाउ/औट में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत नाउ/औट में अपने चाचा की मृत्यु की घटना का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की मृत्यु की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2022 को 10.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 20/टी0डी0आर0/2022

आगामी पेशी : 27-08-2022

श्री मीने राम पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव भवास, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री मीने राम पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव भवास, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथी-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री पल्लवी ठाकुर का जन्म दिनांक 24-10-2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगवाई में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण तत्कालीन ग्राम पंचायत नगवाई में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत नगवाई में अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त की जन्म की घटना को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-08-2022 को 10.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नाम दुरुस्ती नं0 : 10

तारीख दायर : 25-07-2022

तारीख पेशी : 26-08-2022

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव नेरी, डाकखाना व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव नेरी, डाकखाना व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रोशनी देवी है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल में उसका नाम साहणी देवी दर्ज है जो कि गलत है इसलिए प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम साहणी देवी उर्फ रोशनी देवी दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 26 जुलाई, 2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार  
एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नाम दुरुस्ती नं0 : 11

तारीख दायर : 25-07-2022

तारीख पेशी : 26-08-2022

श्री दीप कुमार पुत्र श्री सुख राम उपनाम नोधा, निवासी गांव टकरेहड़, डाकखाना व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री दीप कुमार पुत्र श्री सुख राम उपनाम नोधा, निवासी गांव टकरेहड़, डाकखाना व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी दादी का वास्तविक नाम राधू देवी है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल टकरेहड़ में उसकी दादी का नाम कागदू दर्ज है जो कि गलत है इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल टकरेहड़ में दुरुस्ती की जाकर उसकी दादी का नाम कागदू उर्फ राधू देवी दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 26 जुलाई, 2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार  
एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।



ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नाम दुरुस्ती नं0 : 12

तारीख दायर : 25-07-2022

तारीख पेशी : 26-08-2022

दिव्या बिष्ट पुत्री स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव दयोडी, डाकखाना व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

दिव्या बिष्ट पुत्री स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव दयोडी, डाकखाना व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम दिव्या बिष्ट है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल दतवाड़, कच्छाली व लसराणा में उसका नाम कुमारी चाहत दर्ज है जो कि गलत है इसलिए प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल दतवाड़, कच्छाली व लसराणा में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम कुमारी चाहत उर्फ दिव्या बिष्ट दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 26 जुलाई, 2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार  
एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Bharat Bhushan s/o Sh. Tek Chand, r/o Village Dan, P.O. Gohar, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Manisha Kumari d/o Narender Kumar, r/o V.P.O. Kot, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.)  
.. Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Bharat Bhushan and Smt. Manisha Kumari have filed an application on 25-07-2022 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-04-2022 and they are living as husband and wife since then and hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-08-2022. The objection received after 26-08-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 25-07-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rewat Singh s/o Sh. Khem Singh, r/o Village Anah, P.O. Bara, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Pawana Kumari d/o Tek Chand, r/o Village Rod, P.O. Jarol, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rewat Singh and Smt. Pawana Kumari have filed an application on 23-07-2022 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-07-2022 and they are living as husband and wife since then and hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-08-2022. The objection received after 23-08-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-07-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Smt. Sonu w/o Sh. Jeet Singh, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, Himachal Pradesh.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Sonu w/o Sh. Jeet Singh, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her son named—Mr. Milan s/o Sh. Jeet Singh, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Mr. Milan	son	26-01-2009

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-07-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Smt. Sonu w/o Sh. Jeet Singh, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, Himachal Pradesh.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Sonu w/o Sh. Jeet Singh, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughter named—Km. Muskan d/o Sh. Jeet Singh, r/o Tulsi Ram Sharma Niwas, Ghora Chowki, Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Km. Muskan	daughter	04-09-2010

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-07-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Sh. Bikkee Sharma s/o Sh. Sharjug Sharma, r/o Ankur Villa, Sanjay Gandhi School, Sector-2, New Shimla, Himachal Pradesh.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Bikkee Sharma s/o Sh. Sharjug Sharma, r/o Ankur Villa, Sanjay Gandhi School, Sector-2, New Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his daughter named—Km. Priya Sharma d/o Sh. Bikkee Sharma s/o Sh. Sharjug Sharma, r/o Ankur Villa, Sanjay Gandhi School, Sector-2, New Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Km. Priya Sharma	daughter	05-01-2017

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-07-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Ompal, Executive Magistrate, Tehsil Chopal,  
District Shimla (H. P.)**

Sh. Virender Kumar s/o Late Sh. Chet Ram, r/o Village Mouna, P.O. Pulbhal, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

General Public . . Respondent.

*Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Whereas, Sh. Virender Kumar s/o Late Sh. Chet Ram, r/o Village Mouna, P.O. Pulbhal, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his/her Grand-Parents namely Late Sh. Dipu whose date of death is 22-01-1975 & Late Smt. Nomi 01-01-1977 in the Gram Panchayat Jawag Chhamrog, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 27-08-2022 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 27-07-2022.

Seal.

Sd/-,  
Executive Magistrate,  
Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

---

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Smt. Nisha Devi w/o Sh. Devinder Sharma, r/o Shanol, P.O. Devnagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

*Versus*

General Public . . Respondent.

Whereas Smt. Nisha Devi w/o Sh. Devinder Sharma, r/o Shanol, P.O. Devnagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her son/daughter named—Km. Ridhima Sharma d/o Sh. Devinder Sharma, r/o Shanol, P.O. Devnagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Km. Ridhima Sharma	Daughter	09-02-2007

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 05-08-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Rajnesh Kumar, H.P.A.S., Marriage Officer (S.D.M.) Nahan,  
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

#### NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Shri Gagan Deep s/o Shri Jagdev Singh, r/o H. No. 94/13, Mohalla Govindgarh Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Harleen Kaur d/o Sh. Mohd. Islam H. No. 1111/4, Mohalla Amarpur Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage U/s 15 of the Special Marriage Act. 1954, which was solemnized on 13-08-2021 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are here by given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Gagan Deep s/o Shri Jagdev Singh, r/o H. No. 94/13, Mohalla Govindgarh Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Harleen Kaur d/o Sh. Mohd. Islam H. No. 1111/4, Mohalla Amarpur Nahan, District Sirmaur, H.P., they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 27th day of July, 2022.

Seal.

RAJNESH KUMAR (HPAS),  
Addl. Register Under Special  
Marriage Act-cum-Officer (S.D.M.), Nahan,  
District Sirmaur (H.P.).

**In the Court of Vikram Singh, H.A.S., Addl. District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

**NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954**

In the matter of :

Smt. Meera Devi aged about 50 years d/o Late Sh. Jiwan Singh, and w/o Late Sh. Kanshi Ram @ kanshia r/o Village & P. O. Nohradhar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur, H. P.

and

Sh. Krishan Kumar Pradhan s/o Late Sh. Tek Bahadur aged about 64 years (Widower) r/o House No. 163/12, near Shamshepur Cantt. Area, Nahan District Sirmaur, (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

(Application for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954).

Smt. Meera Devi aged about 50 years d/o Late Sh. Jiwan Singh, and w/o Late Sh. Kanshi Ram @ kanshia r/o Village & P. O. Nohradhar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur, H.P. and Sh. Krishan Kumar Pradhan s/o Late Sh. Tek Bahadur aged about 64 years (Widower) r/o House No. 163/12, near Shamshepur Cantt. Area, Nahan District Sirmaur, (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 20-07-2022 stating therein that they have solemnized their marriage on 07-02-2022 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized 07-02-2022 between Smt. Meera Devi d/o Late Sh. Jiwan Singh, and w/o Late Sh. Kanshi Ram @ kanshia r/o Village & P. O. Nohradhar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur, H. P. and Sh. Krishan Kumar Pradhan s/o Late Sh. Tek Bahadur r/o House No. 163/12, near Shamshepur Cantt. Area Nahan, District Sirmaur, (H.P.). He/She should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of publication of this notice. After expiry of the said period, the marriage would be ordered to be registered by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 20-7-2022.

Seal.

VIKRAM SINGH (HAS),  
Addl. Distt. Registrar of Marriage  
Officer-cum-SDM Sangrah,  
District Sirmaur, Himachal Pradesh.

**In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

*Notice under section 16 of Special Marriage Act.*

Whereas, Sh. Piyush Kumar s/o Sh. Dinesh Kumar, r/o Honey Cottage, Near HRTC Workshop, Basal, Tehsil & District Solan, H.P. and Smt. Nancy Bansal d/o Sh. Ashok Bansal, w/o Sh. Piyush Kumar, r/o Honey Cottage, Near HRTC Workshop, Basal, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 18-09-2021, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Piyush Kumar s/o Sh. Dinesh Kumar, r/o Honey Cottage, Near HRTC Workshop, Basal, Tehsil & District Solan, H.P. and Smt. Nancy Bansal d/o Sh. Ashok Bansal, w/o Sh. Piyush Kumar, r/o Honey Cottage, Near HRTC Workshop, Basal, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 30th day of July, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS,  
Marriage Officer-cum-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, District Solan (H. P.).

---

**In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

*Notice under section 16 of Special Marriage Act.*

Whereas, Sh. Amit Kumar, s/o Sh. Kamal Jeet, r/o VPO Sultanpur, Tehsil & District Solan, H.P. and Smt. Muskan d/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Dhar ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 25-11-2019, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Amit Kumar, s/o Sh. Kamal Jeet, r/o VPO Sultanpur, Tehsil & District Solan, H.P. and Smt. Muskan d/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Dhar ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.



Issued under my hand and seal of the court on this 30th day of July, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS,  
*Marriage Officer-cum-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

*Notice under section 16 of Special Marriage Act.*

Whereas, Sh. Krishan Lal, s/o Sh. Shiv Ram, r/o Railway Colony, Ward No. 2, Tehsil & District Solan, H.P. and Smt. Nisha Chauhan d/o Sh. Binder Singh Chauhan, r/o Near Hanuman Mandir, Anil Sood, Ward No. 4, VTC Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 27-11-2020, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Krishan Lal, s/o Sh. Shiv Ram, r/o Railway Colony, Ward No. 2, Tehsil & District Solan, H.P. and Smt. Nisha Chauhan d/o Sh. Binder Singh Chauhan, r/o Near Hanuman Mandir, Anil Sood, Ward No. 4, VTC Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 30th day of July, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS,  
*Marriage Officer-cum-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, District Solan (H. P.).*

**Before Shri Mamohan Jistu, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.  
20/2021

Date of Institution  
12-07-2022

Sh. Kishan Pal s/o Late Shri Devi Prashad, r/o Village Datyar, Post Office Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh at Present r/o VPO Trilokpur (124) Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, (H. P.)  
. . .Applicant.

*Versus*

General Public

. .Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Sh. Kishan Pal s/o Late Shri Devi Prashad, r/o Village Datar, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh at Present r/o VPO Trilokpur (124) Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his Father Shri Devi Prashad died on 30-03-2020 at Village Datar, Post Office Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but his date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Shri Devi Prashad may submit their objections in writing in this court on or before 24-18-2022 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 23th day of July, 2022.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan (H. P.).*

**Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.**

Case No.  
17/2022

Date of Institution  
28-07-222

Date of Decision  
Fixed for hearing on 27-08-2022

Sh. Ram Swaroop, s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Samog, P.O. Okhru, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh . .Applicant.

*Versus*

General Public

. .Respondent.

*Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.*

Proclamation

Sh. Ram Swaroop, s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Samog, P.O. Okhru, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter named kiran was born on 28-03-2004 at Village Samog, P.O. Okhru, Tehsil Arki, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Samog, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per the Non availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Samog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Km. Kiran, may submit their objections in writing in this office on or before 27-08-2022 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 28th day of July, 2022.

Seal.

Sd/-  
KESHAV RAM (H.A.S.)  
Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, District Solan, ( H. P.)

**Before Shri Manmohan Jishtu, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.  
21/2022

Date of Institution  
12-7-2022

Smt. Meenakshi Sharma, d/o Late Shri Paras Ram, r/o Village Rajri, Post Office Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh at present w/o Shri Sukhdev Sharma r/o Room No. 18, Bhagirath Bhawan, Shanti Kunj, Haridwar (Uttarakhand). . .Applicant.

*Versus*

General Public

. .Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Meenakshi Sharma, d/o Late Shri Paras Ram, r/o Village Rajri, Post Office Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh at present w/o Shri Sukhdev Sharma r/o Room No. 18, Bhagirath Bhawan, Shanti Kunj, Haridwar (Uttarakhand) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that Smt. Meenakshi Sharma born on 26-09-1970 at Village, & P.O. Rajri, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of Birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of Birth of Smt. Meenakshi Sharma may submit their objections in writing in this court on or before 23-08-2022 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of July, 2022.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan (H. P.).

**Before Shri Manmohan Jishtu, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar), Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.  
22/2021

Date of Institution  
28-07-2022

Sh. Inder Jeet, s/o Shri Dina Nath, r/o Village Thandu, Post Office Kotbeja, Tehsil Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh . .Applicant.

*Versus*

General Public . .Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Sh. Inder Jeet, s/o Shri Dina Nath, r/o Village Thandu, Post Office Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter Km. Kusum Lata born on 10-02-2014 at Village Thandu, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of Birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of Birth of Km. Kusum Lata may submit their objections in writing in this court on or before 30-08-2022 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 28th day of July, 2022.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan (H. P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Brijesh Kumar Kanta s/o Sh. Bhagmal Kanta, r/o Village Piplah, P.O. Irra, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that my name in my son namely Abhas Kanta School/CBSE record has been wrongly entered as Brijesh Kanta instead of Brijesh Kumar Kanta. My original name is Brijesh Kumar Kanta and same may kindly be corrected/entered in School/CBSE record of my son. All concerned please note.

BRIJESH KUMAR KANTA,  
s/o Sh. Bhagmal Kanta  
r/o Village Piplah, P.O. Irra,  
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Manju Kumari w/o Sh. Brijesh Kumar Kanta, r/o Village Piplah, P.O. Irra, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that my name in my son namely Abhas Kanta School/CBSE record has been wrongly entered as Manju instead of Manju Kumari. My original name is Manju Kumari and same may kindly be corrected/entered in School/CBSE record of my son. All concerned please note.

MANJU KUMARI,  
w/o Sh. Brijesh Kumar Kanta,  
r/o Village Piplah, P.O. Irra,  
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

